

प्रेस नोट- थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 24.09.2021

थाना डुमरियागंज में 02 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व अपहृता बरामद

डॉ० यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में, श्री शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना डुमरियागंज सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 24.09.2021 को मु अ सं 139/2021 धारा 363/366ए IPC व 3(2)5ए एससी एसटी एक्ट थाना डुमरियागंज जनपद-सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित अपहृता को बरामद किया गया तथा उक्त मुकदमें में वांछित 02 नफर अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर बैदौला चौराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. शकील अहमद पुत्र रशीद अहमद अंसारी
2. मोहम्मद शफीक पुत्र एहसानुल्लाह साकिनान हल्लौर थाना- डुमरियागंज जनपद-सिद्धार्थनगर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1- प्र०नि० श्री शैलेश कुमार सिंह
 - 2- मुख्य आरक्षी विकास सिंह
 - 3- आरक्षी गौरव कुमार
 4. आरक्षी चन्दन सिंह
- थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेसनोट दिनांक- 24.09.2021

एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा की कार्यवाही में 05 शोहदे धरे गये ।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके आदि स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्रता व अश्लील हरकत आदि करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी ।

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24.09.2021 को प्रभारी एंटी रोमियो/ शक्ति मोबाइल महिला उ०नि० श्रीमती पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर, जोगिया उदयपुर व बासी में आज स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, पार्कों आदि में चेकिंग की गयी। इस दौरान 05 शोहदे पकड़े गये । पकड़े गये शोहदो के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई। शोहदो के घर वालो से बात करने के बाद घरवालों के द्वारा पुनः गलती ना करने के आश्वासन तथा शोहदो द्वारा माफी मांगने व भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने के शपथ खाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा गया ।

एण्टी रोमियो टीम का विवरण-

- 01-महिला उ०नि० श्रीमती पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02-आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जानपद सिद्धार्थनगर ।

सराहनीय कार्य दिनांक 24.09.2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-24-09-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम०वी० एक्ट के अंतर्गत 783 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 136 वाहनों का चालान कर ₹ 1,45,500/-शमन शुल्क वसूल किया गया ।